

Rajasthali Law Institute
Prelims test series
Indian evidence act,Raj.Rent Control Act-4

1)In within what period tenancy agreement will be executed?/किस अवधि के भीतर किरायेदारी समझौता निष्पादित किया जाएगा?

- a) Within 9 months / 9 महीने के भीतर
- b) No provision for any period / किसी भी अवधि के लिए कोई प्रावधान नहीं
- c) Within a period of one Year/ एक साल की अवधि के भीतर
- d) None of the above / इनमे से कोई भी नहीं

2)Within what period the rent officer will upload the registration number and other details on the website?

किराया अधिकारी किस अवधि के भीतर पंजीकरण संख्या और अन्य विवरण वेबसाइट पर अपलोड करेगा?

- a) within 30 days/30 दिनों के भीतर
- b) within 45 days/45 दिनों के भीतर
- c) within 15 days/15 दिनों के भीतर
- d) within 60 days/ 60 दिनों के भीतर

3). Under what circumstances revision of rent is possible?

किन परिस्थितियों में किराए में संशोधन संभव है?

- a) where the landlord has incurred expenditure on account of improvement, addition or structure alteration in the premises / जहां मकान मालिक ने परिसर में सुधार जोड़ने या संरचना परिवर्तन के कारण खर्च किया है
- b) if there has been a decrease or diminution or deterioration of accommodation or ho vice in the premises / अगर परिसर में आया बास सेवा में कमी या कमी या गिरावट आई है
- c) in the above said both circumstances / उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में
- d) above said both are wrong/ ऊपर कहा दोनों गलत हैं

4)How many months security deposit with the landlord will be lawful?

मकान मालिक के पास कितने महीने की प्रतिभूति राशि वैध होगी?

- a) 1 month/1 महीना
- b) 15 days/15 दिन
- c) 2 months/2 महीने
- d) 3 months/3 महीने

5) Under what circumstances the rent will be deposited with the rent officer? किराया अधिकारी के पास किराया किन परिस्थितियों में जमा किया जाएगा?

- a) where landlord does not accept the rent/जहां मकान मालिक किराया स्वीकार नहीं करता
- b) where landlord refuses to give receipt for the rent/जहां मकान मालिक किराए की रसीद देने से मना कर देता है
- c) where in case of person to whom the rent is payable there is genuine doubt/जहां उस व्यक्ति मामले में जिसे किराया देय है, वास्तविक संदेह है
- d) all above are correct/उपरोक्त सभी सही हैं

6) Under Section 18 of Rajasthan rent Control Act the rent Tribunal shall in deciding such petition to which provisions contained in Chapter 2 and 3 of this act do not apply have due regards to the provisions of राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 18 के तहत किराया अधिकरण ऐसी याचिका का निर्णय करने में, जिस पर इस अधिनियम के अध्याय 2 और 3 में निहित प्रावधान लागू नहीं होते हैं, के प्रावधानों का उचित संबंध है-

- a) Transfer of Property Act 1882/संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882
- b) Indian Contract Act 1872/भारतीय संविदा अधिनियम 1872
- c) Civil Procedure Code 1908/सिविल प्रक्रिया संहिता 1908
- d) a and b/ए और बी

7) Among the following statement which statement is correct? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?

- a) the rent Tribunal and appellate Tribunal shall be bound by the procedure laid by CPC 1908/ रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलिय ट्रिब्यूनल सीपीसी 1908 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य होंगे
- b) the rent Tribunal and the appellate Tribunal shall not be guided by the principle of natural justice / किराया अधिकरण और अपीलिय न्यायाधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित नहीं होंगे
- c) the rent Tribunal shall not grant any adjournment without written application and recording the reason therefore in writing/ रेंट ट्रिब्यूनल लिखित आवेदन और लिखित रूप में कारण दर्ज किए बिना कोई स्थगन नहीं देगा
- d) the rent Tribunal and appellate Tribunal shall not have any powers to regulate their own procedure / किराया अधिकरण और अपीलिय न्यायाधिकरण को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की कोई शक्ति नहीं होगी

8) the Rent Tribunal shall conduct the proceeding under Section 23 relating to discontinuance or withholding of amenities enjoyed by the tenant in a summary manner within how much period he shall submitted by the landlord or tenant on the subject from the date of its presentation-

रेट ट्रिब्यूनल, किरायेदार द्वारा प्राप्त सुविधाओं को बंद करने या रोकने से संबंधित धारा 23 के तहत कार्यवाही का संचालन एक संक्षिप्त तरीके करेगा कि वह अपनी प्रस्तुति की तारीख से विषय पर मकान मालिक किरायेदार द्वारा कितनी अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा-

- a) 30 days/तीस दिन
- b) 60 days/60 दिन
- c) 90 days/90 दिन
- d) 120 days/120 दिन

9) Among the following statement which statement is correct? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?

a) State government shall constitute such number of appellate Tribunal and at such places as may be deemed necessary by it, by the notification in the official gazette / राज्य सरकार इतनी संख्या में अपील न्यायाधिकरण का गठन करेगी और ऐसे स्थानों पर जो इसके द्वारा आवश्यक समझे जा सकते हैं, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा

b) Where two or more appellate rent tribunal are constituted for any area of the state government made by General or special order regulate the distribution of business among them / जहां राज्य सरकार के किसी भी क्षेत्र के लिए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उनके बीच व्यापार के वितरण को विनियमित करने के लिए दो या अधिक अपीलकर्ता किराया न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है

c) An Appellate Rent Tribunal shall consist of one person only as the presiding officer of the appellate Tribunal to be appointed by the high court or/ एक अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल में उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अपील न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में केवल एक व्यक्ति शामिल होगा

d) All of the above/ऊपर के सभी

10) The appellate rent Tribunal shall fix a date of hearing which shall not be later than from the date of service of notice of appeal on the respondent?

अपील किराया ट्रिब्यूनल सुनवाई की तारीख तय करेगा जो प्रतिवादी पर अपील के नोटिस की तारीख से अधिक नहीं होगी?

a) 30 days/तीस दिन

b) 45 days/45 दिन

c) 60 days/60 दिन

d) 90 days/90 दिन

11) "किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई भी साक्ष्य न दिया जाए।" यह प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की किस धारा में उपबंधित है?

"The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side." This provision is provided in which Section of the Indian Evidence Act, 1872-

(a) धारा 101 / Section 101

(b) धारा 102 / Section 102

(c) धारा 103 / Section 103

(d) धारा 104 / Section 104

12) ख को क चोरी के लिए अभियोजन करता है और न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि ख ने चोरी की स्वीकृति ग से की। यह स्वीकृति कौन साबित साबित करेगा? / 'A' prosecutes B for theft, and wishes the Court to believe that B admitted the theft to C. who prove the admission?

(a) 'क' को स्वीकृति साबित करनी होगी / 'A' must prove the admission

(b) 'ग' को स्वीकृति साबित करनी होगी / 'C' must prove the admission

(c) 'क' और 'ग' को स्वीकृति साबित करनी होगी / 'A' & 'C' must prove the admission

(d) उपरोक्त सभी / All of the above

13). जब कोई तथ्य विशेषकर अभियुक्त की ज्ञान में हो तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होता है। / When any fact is especially with in the knowledge of accused, the burden of proving that fact is upon.

- (a) अभियुक्त / Accused
- (b) अभियोजन / Prosecution
- (c) या तो अभियुक्त या अभियोजन पक्ष / Either accused or prosecution
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above

14)कि वह तीस वर्ष के भीतर जीवित था, तब यह साबित करने का भार कि वह मर गया है- / When the question is whether a man is alive or dead, and it is shown that he was alive within thirty years, the Burden of proving that he is dead-

- (a) उस व्यक्ति पर है जो उसे प्रतिज्ञात करता है / Is on a person who affirms it
- (b) उस व्यक्ति पर है जो इससे प्रत्ख्यान करता है / Is on a person who denies it
- (c) मृत व्यक्ति के जीवनसाथी पर है / Is on spouse of dead person
- (d) मृत व्यक्ति के प्रथम रक्त संबंधी पर है / Is on first blood relative of the dead person

15)"जीवन की उपधारणा" भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की किस धारा में उपबंधित है? / "Presumption of Life" is provided in which Section of the Indian Evidence Act, 1872?

- (a) धारा 104 / Section 104
- (b) धारा 105 / Section 105
- (c) धारा 106 / Section 106
- (d) धारा 107 / Section 107

16)यदि कोई व्यक्ति जिसके बारे में से कुछ नहीं सुना है तो उसे मृत माना जाएगा। / A person shall be deemed to be dead if he remained unheard for

- (a) 5 वर्ष / 5 years
- (b) 7 वर्ष / 7 years
- (c) 10 वर्ष / 10 years
- (d) 30 वर्ष / 30 years

17)स्वामित्व के बारे में सबूत का भार अंतर्गत उपबंधित है / Burden of proof as to ownership is provided under-

- (a) साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 109 के / Section 109 of the Evidence Act, 1872
- (b) साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 110 के / Section 110 of the Evidence Act, 1872
- (c) साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 111 के / Section 111 of the Evidence Act, 1872
- (d) साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 112 के / Section 112 of the Evidence Act, 1872

18)कक्षीकार द्वारा अटर्नी के पक्ष में लिए गए विक्रय का सद्भाव कक्षीकार द्वारा लाए गए वाद में प्रश्नगत है। संव्यवहार का सद्भाव साबित करने का भार /

The good faith of a sale by a client to an attorney is in question in a suit brought by the client. The burden of proving the good faith of the transaction is

- (a) कक्षीकार पर है / On the client

- (b) अटर्नी पर है / On the attorney
(c) (a) और (b) दोनों / Both (a) and (b)
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above

19) धारा 112 के अंतर्गत धर्मजत्व की उपधारणा है / The presumption of legitimacy under section 112 is-

- (a) विधि की उपधारणा / presumption of law
(b) तथ्य की उपधारणा / presumption of fact
(c) विधि और तथ्य की मिश्रित उपधारणा / mixed presumption of law and fact
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above

20) विवाहित स्थिती के दौरान जन्म होना निश्चयक सबूत है, परन्तु बच्चे का जन्म विवाहित के दौरान होना चाहिए अथवा विवाह विच्छेद के पश्चात माता के अविवाहित रहने के दौरान हुआ हो। वह विनिर्दिष्ट अवधि क्या है? / Birth during marriage is conclusive proof of legitimacy provided the child is born during the continuance of a valid marriage or within a specified time period after its dissolution, the mother remaining unmarried. What is that specified time provided?

- (a) 220 दिन / 220 days
(b) 240 दिन / 240 days
(c) 260 दिन / 260 days
(d) 280 दिन / 280 days

21) एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण की उपधारणा उत्पन्न होने के लिए, यह दर्शित किया जाना चाहिए / For presumption as to abetment of suicide by a married woman to arise, it must be shown that

- (a) उसने अपने विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी / she committed suicide within a period of 7 years from the date of her marriage.
(b) उसके पति और उसके नातेदार ने उसके साथ क्रूरता की / her husband and his relatives subjected her to cruelty
(c) (a) और (b) दोनों / Both (a) and (b)
(d) (a) और (b) दोनों नहीं / Neither (a) nor (b)

22) किस 'संशोधन' द्वारा धारा 113-क को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में अंतः स्थापित किया गया? / By which 'Amendment' Section 113-A was inserted in the Indian Evidence Act, 1872?

- (a) दहेज प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 1986 / Dowry Prohibition (Amendment) Act, 1986
(b) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 / The Information Technology Act, 2000
(c) दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 1986 / Criminal Law (Amendment) Act, 1986
(d) दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 / Criminal LLAW (Amendment) Act, 1983

23) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की किस धारा में 'दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा' उपबंधित की गई है? / In Which Section of the Indian Evidence Act, 1872 'Presumption as to Dowry Death' is provided?

- (a) धारा 112 / Section 112
(b) धारा 113-क / Section 113-A

- (c) धारा 113-ख / Section 113-B
(d) धारा 114 / Section 114

24) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114-क किससे संबंधित है? / Section 114-A of the Indian Evidence Act, 1872 is related to

- (a) किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा / Presumption as to abetment of suicide by a married woman
(b) किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा / Presumption as to abetment of suicide by a woman
(c) बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने के बारे में उपधारणा / Presumption as to abetment of consent in certain prosecution for rape
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above

25) 'विबंध' को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? / 'Estoppel' has been defined under which section of the Indian Evidence Act, 1872?

- (a) धारा 111 / Section 111
(b) धारा 112 / Section 112
(c) धारा 114 / Section 114
(d) धारा 115 / Section 115

26) विबंध है- / Estoppel is-

- (a) साक्ष्य का नियम / Rule of evidence
(b) प्रतिरक्षा के रूप में उपयोग किया जाता है / Used as defence
(c) साम्य का नियम / Rule of equity
(d) उपरोक्त सभी / All of the above

27) विबंध के सिद्धांत से अभिप्रेत है / The doctrine of estoppel means-

- (a) पूर्व कथन के अनुरूप कथन नहीं करना / Not to make statement in consonance to the earlier statement
(b) पूर्व में किए गये कथन/स्वीकृति के विपरीत कथन करने से रोक / Restriction to make statement contrary to the earlier statement/admission
(c) पूर्व न्याय / Res-judicata
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above

Estd. 2008

28) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सक्षम गवाह हैं- / Under Section 118 of the Indian Evidence Act, 1872 who amongst the following are competent witnesses-

- (a) बालक / Child
- (b) बलात्संग की पीड़िता / Victim of rape
- (c) पागल / Lunatic
- (d) उपरोक्त सभी / All of the above

29) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 119 के अनुसार मूक साक्षी द्वारा दिया गया साक्ष्य माना जायेगा / Evidence given by dumb witness according to Section 119 of the Indian Evidence Act, 1872 shall be treated to be

- (a) मौखिक साक्ष्य / Oral Evidence
- (b) दस्तावेजी साक्ष्य / Documentary Evidence
- (c) अनुश्रुत साक्ष्य / Hearsay Evidence
- (d) परिस्थितिजन्य साक्ष्य / Circumstantial Evidence

30) क सेशन न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त है कि उसने सेशन न्यायाधीश ख के समक्ष विचारित होते समय किसी पुलिस आफिसर की हत्या करने का प्रयत्न किया। क्या उपरोक्त स्थिति में 'ख' से साक्षी के तौर पर परीक्षा की जा सकती है कि उसकी उपस्थिति में क्या हुआ था। 'A' is accused before a Court of Session of attempting to murder a police officer whilst on his trial before 'B'. a Sessions judge. Can 'B' be examined as a witness under the above situation as to what has occurred in his presence.

- (a) यह परीक्षा की जा सकती है क्या घटित हुआ / may be examined as to what occurred
- (b) यह परीक्षा नहीं की जा सकती कि क्या घटित हुआ / cannot be examined as to what occurred
- (c) यह परीक्षा की जा सकती है लेकिन केवल उच्च न्यायालय की अनुमति से / Can be examined but only with the permission of the Higher Court
- (d) सेशन न्यायाधीश की सहमति होने पर ही परीक्षा की जा सकती है / Can be exam only if the Session judge consents

31) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 122 के अंतर्गत विशेषाधिकार उपलब्ध है- / Under Section 122 of under Indian Evidence Act, 1872 Privilege is available to-

- (a) वृत्तिको को / professionals
- (b) मजिस्ट्रेटों को / magistrates
- (c) पति और पत्नी को / husband and wife
- (d) न्यायाधीशों को / judges

32). भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की कौन सी धारा राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य से संबंधित है? / Which section of the Indian Evidence Act, 1872 deals with evidence as to affairs of State?

- (a) धारा 121 / Section 121
- (b) धारा 122 / Section 122
- (c) धारा 123 / Section 123
- (d) धारा 124 / Section 124

33) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की किस धारा के अंतर्गत लोक आफिसर को शासकीय विश्वास में दी हुई संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा? Under which section of the Indian Evidence Act, 1872 a public servant shall not be compelled to disclose communication made to him in official confidence?

- (a) धारा 123 / Section 123
- (b) धारा 124 / Section 124
- (c) धारा 125 / Section 125
- (d) धारा 126 / Section 126

34) किसी राजस्व आफिसर को यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि उसे लोक राजस्व के विरुद्ध किसी अपराध के किए जाने के बारे में कोई जानकारी कहां से मिली। यह प्रावधान उपबंधित है- / No revenue officer shall be compelled to say when he got any information as to the commission of any offence against the public revenue. This provision is provided in-

- (a) साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 में / Section 123 of the Evidence Act
- (b) साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 में / Section 124 of the Evidence Act
- (c) साक्ष्य अधिनियम की धारा 125 में / Section 125 of the Evidence Act
- (d) साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 में / Section 126 of the Evidence Act

35). कक्षीकार क, अटर्नी ख से कहता है, "मैंने कूटरचना की है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी प्रतिरक्षा करें"। क्या यह वृत्तिक संसूचना के अंतर्गत प्रकटन से संरक्षित है? A, a client says to B, an attorney "I have committed - forgery and I wish you to defend me." Whether this is protected from disclosure under the communication? professional

- (a) नहीं है / No
- (b) हाँ / Yes
- (c) यह संसूचना संस्वीकृति है / This communication is confession
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above

राजस्थली

Estd. 2008

36) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की कौन सी धारा वृत्तिक संसूचना से संबंधित है? / Which section of the Indian Evidence Act, 1872 related to professional communications?

- (a) धारा 125 / Section 125
- (b) धारा 126 / Section 126
- (c) धारा 127 / Section 127
- (d) धारा 128 / Section 128

37) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 126 के उपबन्ध निम्नलिखित पर लागू होंगे- / The provisions of Section 126 of the Indian Evidence Act, 1872 shall apply to-

- (a) बैरिस्टर्स / barristers
- (b) वकीलों के लिपिकों / clerks of pleaders
- (c) दुभाषियों / Interpreters
- (d) उपरोक्त सभी / All of the above

38) कोई भी व्यक्ति किसी गोपनीय संसूचना को, जो उसके और उसके विधि वृत्तिक सलाहकार के बीच हुई है, न्यायालय को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान उपबंधित है / No one shall be compelled to disclose to the Court any confidential communication which has taken place between him and his legal professional adviser. This provision is provided in-

- (a) धारा 129 / Section 129
- (b) धारा 130 / Section 130
- (c) धारा 131 / Section 131
- (d) धारा 132 / Section 132

39) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की कौन सी धारा ऐसे दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का पेश किए जाने से संबंधित है जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति, जिसका उन पर कब्जा है, पेश करने से इंकार कर सकता था? /

Which Section of the Indian Evidence Act, 1872 related to the production of documents or electronic records which another person, having possession, could refuse to produce?

- (a) धारा 129 / Section 129
- (b) धारा 130 / Section 130
- (c) धारा 131 / Section 131
- (d) धारा 132 / Section 132

40) किस वर्ष में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 131 में संशोधन किया गया था / Section 131 of the Indian Evidence Act, 1872 was amended in the year

All

- (a) 1999
- (b) 2000
- (c) 2001
- (d) 2002

41) एक साक्षी को अभियुक्त व्यक्ति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यद्यपि उससे अपराध के सन्दर्भ में प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की किस धारा के तहत साक्षी को यह छूट प्रदान की जाती है? A witness cannot be converted into an accused person,

Estd. 2008

though may be compelled to answer questions relating to an offence. Under which Section of the Indian Evidence Act, 1872 this immunity is granted to a witness?

- (a) धारा 131 / Section 131
- (b) धारा 132 / Section 132
- (c) धारा 133 / Section 133
- (d) धारा 134 / Section 134

42) सहअपराधी - / An accomplice-

- (a) अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी नहीं होगा / is not a competent witness against an accused person
- (b) अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा / is a competent witness against accused person
- (c) उस मामले की सम्पुष्टि की जानी चाहिए / must be corroborated in that case
- (d) अभियोजित किया जाना चाहिए / must be prosecuted

43) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की कौनसी धारा यह उपबंध करती है की किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी? Which Section of the Indian Evidence Act, 1872 provides that no particular number of witnesses shall in any case be required for the proof of any fact ?

- (a) धारा 134 / Section 134
- (b) धारा 135 / Section 135
- (c) धारा 136 / Section 136
- (d) धारा 137 / Section 137

44) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की किस धारा के अंतर्गत न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा ? / Under which Section of the Indian Evidence Act, 1872 admissibility of Evidence shall be decided by the Judge?

- (a) धारा 134 / Section 134
- (b) धारा 135 / Section 135
- (c) धारा 136 / Section 136
- (d) धारा 137 / Section 137

45) किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के पश्चात् उसकी उस पक्षकार द्वारा, जिसने उसे बुलाया था, परीक्षा उसकी कहलाएगी। / The examination of a witness subsequent to the cross-examination by the party who has called him, is called his.

- (a) मुख्य परीक्षा / Main examination
- (b) प्रतिपरीक्षा / Cross-examination
- (c) पुनः परीक्षा / Re-examination
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above

46) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की किस धारा में शील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रतिपरीक्षा से संबंधित प्रावधान उपबंधित है? Under which section of the Indian Evidence Act, 1872 provision related to cross-examination of witnesses to character is provided?

- (a) धारा 139 / Section 139
- (b) धारा 140 / Section 140

- (c) धारा 141 / Section 141
(d) धारा 142 / Section 142

47) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की किस धारा में शील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की यतिपरीक्षा से संबंधित प्रावधान उपबंधित है? Under which section of the Indian Evidence Act, 1872 provision related to cross-examination of witnesses to character is provided?

- (a) धारा 139 / Section 139
(b) धारा 140 / Section 140
(c) धारा 141 / Section 141
(d) धारा 142 / Section 142

48) सूचक प्रश्न को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? / Leading question has been defined under which section of the Indian Evidence Act, 1872?

- (a) धारा 139 / Section 139
(b) धारा 140 / Section 140
(c) धारा 141 / Section 141
(d) धारा 142 / Section 142

49) उत्तर सुझाने वाले किसी प्रश्न को कहा जाता है? / Any question suggesting the answer is called?

- (a) मौखिक प्रश्न / oral question
(b) विशेष प्रश्न / Special question
(c) सूचक प्रश्न / Leading question
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above

50) निम्न में से कौन सी परिस्थितियों में मुख्य परीक्षा के दौरान न्यायालय की अनुमति *से सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? Under which of the following conditions a leading questions may be asked during examination-in-chief with permission of the court?

- (a) उन बातों के बारे में, जो पुनःस्थापना के रूप में या निर्विवाद है / In matters which are introductory or undisputed
(b) जो पहले से ही पर्याप्त रूप से साबित हो चुके हैं / which have been already sufficiently proved
(c) (a) या (b) / (a) or (b)
(d) ना तो (a) और ना (b) / Neither (a) nor (b)

51) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धाराएँ एक दूसरे की पूरक हैं? / Which of the following sections of the Indian Evidence Act, are complementary to one another?

- (a) साक्ष्य अधिनियम की धारा 145, 146 और 153 (3) / Section 145, 146 and 153 (3) of the Evidence Act
(b) साक्ष्य अधिनियम की धारा 140, 142 और 150(2) / Section 140, 142 and 150(2) of the Evidence Act
(c) साक्ष्य अधिनियम की धारा 139, 140 और 149(2) / Section 139, 140 and 149(2) of the Evidence Act
(d) उपरोक्त सभी / All the above

52) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा क्षेत्र के अधिग्रहण के प्रमाण से संबंधित है?/Which of the following sections of the Indian Evidence Act, deals with proof of cession of territory?

- (a) साक्ष्य अधिनियम की धारा 111/Section 111 of the Evidence Act
- (b) साक्ष्य अधिनियम की धारा 111ए/Section 111A of the Evidence Act
- (c) साक्ष्य अधिनियम की धारा 113/Section 113 of the Evidence Act
- (d) साक्ष्य अधिनियम की धारा 131/Section 131 of the Evidence Act

53) 'अफर्मैति नॉन नेगंती इनकम्बिट प्रोबेटियो' का अर्थ है -/'Affirmanti non neganti incumbit probatio' means -

- (a) सबूत का भार उस पर नहीं है जो पुष्टि करता है, बल्कि उस पर है जो इनकार करता है/The burden of proof does not rests upon him who affirms, but upon him who denies
- (b) सबूत का भार उस पर है जो पुष्टि करता है, न कि उस पर जो इनकार करता है/The burden of proof rests upon him who affirms, not upon him who denies
- (c) सबूत का भार न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है/The burden of proof rests upon the discretion of the court
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं/None of the above

54) साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 में दो प्रावधानों को शामिल करने की आवश्यकता का किसके द्वारा व्यापक विश्लेषण किया गया है?/By whom the necessity of the insertion of the two provisions in Section 113 of the Evidence Act has been amply analysed?

- (a) दहेज मृत्यु और कानून सुधार पर भारत के विधि आयोग की 19वीं रिपोर्ट, 8 अगस्त 1988/Law commission of India, 19th report, 8 August 1988 on Dowry Death and Law reforms.
- (b) दहेज मृत्यु और कानून सुधार पर भारत के विधि आयोग की 20वीं रिपोर्ट, 9 अगस्त 1988/Law commission of India, 20th report, 9 August 1988 on Dowry Death and Law reforms.
- (c) दहेज मृत्यु और कानून सुधारों पर भारत के विधि आयोग की 21वीं रिपोर्ट, 10 अगस्त 1988/Law commission of India, 21st report, 10 August 1988 on Dowry Death and Law reforms.
- (d) दहेज मृत्यु और कानून सुधारों पर भारत के विधि आयोग की 22वीं रिपोर्ट, 15 अगस्त 1988/Law commission of India, 22nd report, 15 August 1988 on Dowry Death and Law reforms

55) कहावत "पोटियोर एस्ट कंडिटियो पोसिडेंट्स" किस सिद्धांत का प्रतीक है -/The proverb "Potior est conditio possidentis" embodies the principle of -

- (a) साक्ष्य अधिनियम की धारा 108/Section 108 of Evidence Act
- (b) साक्ष्य अधिनियम की धारा 109/Section 109 of Evidence Act
- (c) साक्ष्य अधिनियम की धारा 110/Section 110 of Evidence Act
- (d) साक्ष्य अधिनियम की धारा 111/Section 111 of Evidence Act

56) साक्ष्य को छुपाने का अनुमान नीचे दिया गया है /The presumption from withholding evidence is given under -

- (a) साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(डी)/Section 114(d) of Evidence Act
- (b) साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(ई)/Section 114(e) of Evidence Act
- (c) साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(एफ)/Section 114(f) of Evidence Act
- (d) साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(जी)/Section 114(g) of Evidence Act

57) कौन सी धारा न्यायाधीश को न्याय की सहायता में कार्य करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है?/Which section confers jurisdiction on the judge to act in the aid of justice?

- (a) साक्ष्य अधिनियम की धारा 5/Section 5 of the Evidence Act
- (b) साक्ष्य अधिनियम की धारा 45/Section 45 of the Evidence Act
- (c) साक्ष्य अधिनियम की धारा 165/Section 165 of the Evidence Act
- (d) साक्ष्य अधिनियम की धारा 167/Section 167 of the Evidence Act

58) किसने कहा कि गवाह 'न्याय की आंखें और कान' हैं?/Who said that the witnesses are the 'eyes and ears of justice'?

- (a) बेंथम/Bentham
- (b) ऑस्टि/Austin
- (c) सविग्नी/Savigny
- (d) सैल्मंड/Salmond

59) साक्ष्य अधिनियम की धारा 142 के तहत -/Under section 142 of the Evidence Act -

- (a) अदालत उन मामलों के बारे में प्रमुख प्रश्नों की अनुमति दे सकेगा जो परिचयात्मक या निर्विवाद हैं, या जो, उसकी राय में, पहले से ही पर्याप्त रूप से साबित हो चुके हैं।/The court may permit leading questions as to matters which are introductory or undisputed, or which have, in its opinion, been already sufficiently proved.
- (b) न्यायालय उन मामलों के बारे में प्रमुख प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता है जो परिचयात्मक या निर्विवाद हैं, या जो, उसकी राय में, पहले से ही पर्याप्त रूप से साबित हो चुके हैं।/The court may not permit leading questions as to matters which are introductory or undisputed, or which have, in its opinion, been already sufficiently proved.
- (c) या तो (ए) या (बी)/Either (a) or (b)
- (d) न्यायालय उन मामलों के बारे में प्रमुख प्रश्नों की अनुमति देगा जो परिचयात्मक या निर्विवाद हैं, या जो, उसकी राय में, पहले से ही पर्याप्त रूप से साबित हो चुके हैं।/The Court shall permit leading questions as to matters which are introductory or undisputed, or which have, in its opinion, been already sufficiently proved.

60) शील के साक्षी हो सकते हैं -/Witnesses to character may be -

- (a) मुख्य रूप से जांच की गई और फिर से जांच की गई/Examined-in-chief and re-examined
- (b) मुख्य रूप से जांच की गई और जिरह की गई/Examined-in-chief and cross-examined
- (c) जिरह और दोबारा जांच की गई/Cross-examined and re-examined
- (d) उपरोक्त सभी/All the above

61) साक्ष्य अधिनियम की धारा 136 के तहत -/Under section 136 of the Evidence Act -

- (a) जब अभियोजन पक्ष किसी तथ्य का साक्ष्य देने का प्रस्ताव करता है, तो न्यायाधीश साक्ष्य देने का प्रस्ताव करने वाले पक्ष से पूछेगा कि कथित तथ्य, यदि साबित हो जाता है, तो किस प्रकार प्रासंगिक होगा; और न्यायाधीश साक्ष्य को स्वीकार करेगा यदि वह सोचता है कि तथ्य साबित होने पर प्रासंगिक होगा, और अन्यथा/When prosecution proposes to give evidence of any fact, the Judge shall ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved would be relevant; and the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant, and otherwise.

(b) जब बचाव पक्ष किसी तथ्य का साक्ष्य देने का प्रस्ताव करता है, तो न्यायाधीश साक्ष्य देने का प्रस्ताव करने वाले पक्ष से पूछेगा कि कथित तथ्य, यदि साबित हो जाता है, तो किस प्रकार प्रासंगिक होगा; और न्यायाधीश साक्ष्य को स्वीकार करेगा यदि वह सोचता है कि तथ्य साबित होने पर प्रासंगिक होगा, और अन्यथा/When the defence proposes to give evidence of any fact, the judge shall ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant; and the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant, and otherwise.

(c) जब कोई भी पक्ष किसी तथ्य का साक्ष्य देने का प्रस्ताव करता है, तो न्यायाधीश उस पक्ष से साक्ष्य देने के लिए कह सकता है कि कथित तथ्य, यदि साबित हो जाता है, तो किस प्रकार प्रासंगिक होगा; और न्यायाधीश साक्ष्य को स्वीकार करेगा यदि वह सोचता है कि तथ्य साबित होने पर प्रासंगिक होगा, और अन्यथा/When either party proposes to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant; and the Judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant, and otherwise.

(d) जब कोई भी पक्ष किसी तथ्य का साक्ष्य देने का प्रस्ताव करता है, तो न्यायाधीश उस पक्ष से साक्ष्य देने के लिए कहेगा कि कथित तथ्य, यदि साबित हो जाता है, तो किस प्रकार प्रासंगिक होगा; और न्यायाधीश साक्ष्य को स्वीकार करेगा यदि वह सोचता है कि तथ्य साबित होने पर प्रासंगिक होगा, और अन्यथा/When either party proposes to give evidence of any fact, the Judge shall ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant; and the Judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant, and otherwise.

62) कहानी को उजागर करने के लिए आवश्यक साक्षी , जिस पर अभियोजन आधारित है, निश्चित रूप से, अभियोजन पक्ष द्वारा बुलाया जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष उन सभी साक्षियों को पेश करने के लिए बाध्य नहीं है जिनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने घटना देखी है। लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा अकेले अभियोजन की कहानी को उजागर करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले _____ को गवाहों के अनावश्यक और निरर्थक गुणा के बिना, प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।/Witnesses essential to the unfolding of the narrative, on which the prosecution is based, must of course, be called by the prosecution. The prosecution is not bound to produce all the witnesses said to have seen the occurrence. But the _____ considered necessary by the prosecution for unfolding the prosecution story alone, need to be produced, without unnecessary and redundant multiplication of witnesses.

- (a) शत्रुतापूर्ण गवाह/Inimical witnesses
- (b) पक्षद्रोही गवाह/Hostile witnesses
- (c) महत्त्वपूर्ण गवाह/Material witnesses
- (d) पुलिस गवाह/Police witnesses

63) यदि गवाह किसी पक्ष द्वारा नहीं लाया गया है, या लाया गया है लेकिन उसकी जांच नहीं की गई है, लेकिन उसकी आवश्यकता है किसी मामले के न्यायसंगत और निष्पक्ष निपटान के लिए, और यदि अदालत समन करती है या जांच करती है वह गवाह, तो ऐसे गवाह को _____ कहा जाएगा जैसा कि ऐसे गवाह को कहा जाएगा न तो अभियोजन पक्ष का गवाह बनें और न ही बचाव का।/If the witness is not brought by a party, or brought but not examined, but is needed by the court, for the just and fair disposal of a case, and if the court summons or examines that witness, then such a witness would be termed as a _____ as such a witness would be neither a witness for the prosecution nor for the defence.

- (a) दोषी गवाह/Convict witness
- (b) अदालत का गवाह/Court witness

- (c) फर्जी गवाह/Decoy witness
(d) ट्रैप गवाह/Trap witness

64)निम्नलिखित में से किस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि "धारा 114, साक्ष्य अधिनियम का चित्रण (बी), एक साथी की अनुमानित असाध्य योग्यता की परिकल्पना करता है। लेकिन, फिर साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 में प्रावधान है कि कोई दोषसिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है क्योंकि यह किसी साथी की अपुष्ट गवाही पर आधारित है। अभियोग, विशेष रूप से गंभीर अपराधों में, सावधानी की अवधारणा और विवेक का नियम यह बताता है कि सामग्री विवरण पर स्वतंत्र पुष्टि के बिना किसी अपराध में दोषी साथी के साक्ष्य पर दोषसिद्धि को रोकना असुरक्षित है। इस प्रकार, न्यायिक अनुभव को कानून के शासन तक बढ़ा दिया गया। "यह एक प्रथा है" ऐसा कहा जाता है "जो कानून के सभी संदर्भों के योग्य है"।/In which of the following case, it was held by the Hon'ble Supreme Court that "Section 114, illustration (b) of the Evidence Act, envisages the presumptive uncredit worthiness of an accomplice. But, then section 133 of the Evidence Act provides that a conviction is not illegal merely because it rests upon an uncorroborated testimony of an accomplice. Indictments, particularly of serious crimes, the concept of caution and the rule of prudence enjoin that it is unsafe to rest a conviction on the evidence of a guilty partner in a crime without independent corroboration on the material particulars. Judicial experience was thus, elevated to a rule of law. "It is a practice" it is said "which deserves all the reference of law".

- (a) बलवंत कौर बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ एआईआर 1988 एससी 139/Balwant Kaur vs. Union Territory of Chandigarh AIR 1988 SC 139
(b) पटेल नारनभाई मरघाभाई बनाम मृतक धुलाभाई गलाबाभाई, एआईआर 1992 एससी 2009। /Patel Naranbhai Marghabhai vs. Deceased Dhulabhai Galababhai, AIR 1992 SC 2009.
(c) पंजाब राज्य बनाम बलवान सिंह एआईआर 1994 एससी 1872/State of Punjab vs. Balvan Singh AIR 1994 SC 1872
(d) पाबित्रा कुमार रॉय बनाम अलीता डिसूजा, एआईआर 2006 एससी 3355।/Pabitra Kumar Roy vs. Alita D'Souza, AIR 2006 SC 3355.

65)कौन सा अनुभाग 'पेटर इस्ट क्वेम नुप्तियो डेमोंस्ट्रेंट' कहावत पर आधारित है।/Which section is based upon the maxim 'pater est quem nuptioe demonstrant'.

- (a) साक्ष्य अधिनियम की धारा 111 ए/Section 111 A of the Evidence Act
(b) साक्ष्य अधिनियम की धारा 112/Section 112 of the Evidence Act
(c) साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए/Section 113 A of the Evidence Act
(d) साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी/Section 113 B of the Evidence Act

66)साक्ष्य अधिनियम की धारा 145, लागू नहीं होती -/Section 145 of the Evidence Act, is not applicable to the –

- (a) स्वीकृति/Admission
(b) आपराधिक कार्यवाही/Criminal proceedings
(c) दोनों (ए) और (बी)/Both (a) and (b)
(d) स्वीकृति और आपराधिक कार्यवाही दोनों पर लागू/Applicable to both admission and criminal proceedings

67) 'एलेगन्स कॉन्ट्रैर नॉन एस्ट ऑडिएंडस' का अर्थ है -/ 'allegans contrair non est audiendus' means –

- (a) किसी गवाह को विपरीत आरोप लगाने के लिए नहीं सुना जाना चाहिए/A witness is not to be heard to allege the contrary.
- (b) किसी पक्ष को इसके विपरीत आरोप लगाने के लिए नहीं सुना जाना चाहिए।/A party is not to be heard to allege the contrary.
- (c) किसी पक्ष या गवाह को विपरीत आरोप लगाने के लिए नहीं सुना जाना चाहिए।/A party or witness is not to be heard to allege the contrary.
- (d) किसी पक्ष या गवाह दोनों को विपरीत आरोप लगाते हुए सुना जा सकता है।/A part or witness both may be heard to allege the contrary.

68) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा संशोधित है?/Which of the following section of the Indian Evidence Act, is amended by the criminal law amendment Act 2013?

- (a) साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए/Section 113 A of the Evidence Act
- (b) साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी/Section 113 B of the Evidence Act
- (c) साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 ए/Section 114 A of the Evidence Act
- (d) साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 बी/Section 114 B of the Evidence Act

69) 'ए' पर 'बी' की उसके घर पर हत्या करने का आरोप है। 'ए' ने अपना बचाव करते हुए कहा कि जिस समय बी की हत्या का आरोप लगाया गया है उस समय वह शहर में नहीं था। साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत, अपने बचाव को साबित करने का भार 'ए' पर होगा?/'A' is accused of murdering 'B' at his house. 'A' raises the defense that he was not in the town at the time when B is alleged to have been murdered. Under which of the following provisions of the Evidence Act, burden of proof would be on 'A' to prove his defense?

- (a) साक्ष्य अधिनियम की धारा 103/Section 103 of the Evidence Act
- (b) साक्ष्य अधिनियम की धारा 104/Section 104 of the Evidence Act
- (c) साक्ष्य अधिनियम की धारा 105/Section 105 of the Evidence Act
- (d) साक्ष्य अधिनियम की धारा 106/Section 106 of the Evidence Act

70) साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अंतर्गत कुल कितने दृष्टांत दिए गए हैं न्यायालय कुछ तथ्यों का अस्तित्व मान सकता है -/How many total illustrations are given under section 114 of the Evidence Act, where court may presume existence of certain facts –

- (a) नौ/Nine
- (b) द/Ten
- (c) ग्यार/Eleven
- (d) बारह/Twelve

Answer key

- 1-c
- 2-c
- 3-c
- 4-a
- 5-d
- 6-d
- 7-c
- 8-b
- 9-d
- 10-b
- 11-b
- 12-a
- 13-a
- 14-a
- 15-d
- 16-b
- 17-b
- 18-b
- 19-a
- 20-d
- 21-c
- 22-d
- 23-c
- 24-c
- 25-d
- 26-a
- 27-b
- 28-d
- 29-a



राजस्थली

Estd. 2008

30-a
31-c
32-c
33-b
34-c
35-b
36-b
37-d
38-a
39-c
40-b
41-b
42-b
43-a
44-c
45-c
46-c
47-b
48-c
49-c
50-c
51-a
52-c
53-b
54-c
55-c
56-d
57-c
58-a
59-d
60-c
61-c
62-c
63-b
64-a



Estd. 2008

65-b
66-a
67-b
68-c
69-a
70-a



Estd. 2008